



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 कार्तिक 1933 (श0)
(सं0 पटना 597) पटना, सोमवार, 31 अक्टूबर 2011

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना
28 सितम्बर 2011

सं० 1061—उदासीन संगत महावीर स्थान, मढ़ौरा, छपरा (सारण) पर्षद् के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 2540 है ।

इस न्यास के महंत पद के दावेदार श्री नारायण दास को न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करने तथा उदासीन परम्परा एवं सम्प्रदायगत मर्यादा को तोड़ने के कारण बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-28 (2) (ज) (vii) के तहत आदेश दिनांक 4 सितम्बर 2009 द्वारा महंत के पद से अपसारित कर दिया गया था । साथ ही न्यासधारी के रिक्त पद पर पर्षदीय पत्रांक 2065, दिनांक 15 जनवरी 2010 द्वारा अधिनियम की धारा-33 के अंतर्गत श्री अनिरुद्ध मुनी योगीराज को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था ।

पर्षद् को जानकारी मिली है कि श्री अनिरुद्ध मुनी न्यास पर नहीं रहते हैं और उनकी अस्थायी न्यासधारी नियुक्ति संबंधी आदेश के एक वर्ष की अवधि भी समाप्त हो गयी है । पर्षद् को यह भी सूचना मिली है कि न्यासधारी के नहीं रहने के कारण मठ पर धार्मिक आचारों का पालन भी नहीं हो रहा है और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

अतः मैं, किशोर कुणाल, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद्, उदासीन संगत महावीर स्थान, मढ़ौरा, छपरा के सुचारु प्रबंधन, सम्यक् विकास तथा सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा-32 के तहत अग्रलिखित योजना का निरूपण करते हुए इसके क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ ।

योजना

1. इस योजना का नाम उदासीन संगत महावीर स्थान, मढ़ौरा न्यास योजना होगा तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्षद् द्वारा गठित न्यास समिति का नाम “उदासीन संगत महावीर स्थान, मढ़ौरा न्यास समिति” होगा, जिसमें मठ की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा ।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मठ की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी ।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक् रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी ।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी ।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक कांड में आरोप-पत्रित होंगे तो उनकी अहर्ता समाप्त हो जायेगी ।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल आदेश की तिथि से 05 वर्षों की होगी । लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- | | |
|---|------------|
| (1) श्री गोपाल दास, उदासीन संगत महावीर मंदिर, मढ़ौरा, सारण (छपरा) — | अध्यक्ष |
| (2) श्री मुन्ना लाल गुप्ता, नया गोला, मढ़ौरा, सारण (छपरा) — | सचिव |
| (3) श्री विष्णु कुमार प्रसाद, ग्राम-मढ़ौरा, सारण (छपरा) — | कोषाध्यक्ष |
| (4) श्री राम देव सिंह, बसटोली, मढ़ौरा, सारण (छपरा) — | सदस्य |
| (5) श्री वीरभद्र तिवारी, स्टेशन रोड, मढ़ौरा, सारण (छपरा) — | सदस्य |
| (6) श्री पप्पु मेहता, बसटोली, मढ़ौरा, सारण (छपरा) — | सदस्य |
| (7) श्री पुकार महतो, मढ़ौरा, सारण (छपरा) — | सदस्य |

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 597-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>